



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935

No. 270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2013

सं. 38 (आर. ई. 2013)/2009-2014

विषय : आईसीडी/सीएफएस के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात के लिए अनुमति ।

फा. सं. 01/91/180/1240/एम10/निर्यात सैल.—
समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात के संबंध में दिनांक 05-09-2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 24 (आर. ई. 2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 13-8-2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 (आर. ई. 2013)/2009-14 को संशोधित करते हैं ।

2. दिनांक 13-8-2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 (आर. ई. 2013)/2009-14 द्वारा निर्धारित किया गया था कि तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात चेन्नई, मुम्बई (जेएनपीटी) और कोलकाता के समुद्री पत्तनों और कानपुर और तुगलकाबाद के आईसीडी अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पत्तन/आईसीडी के माध्यम से किया जाएगा । इस सार्वजनिक सूचना द्वारा दिनांक 1-12-2009 की सार्वजनिक सूचना

सं. 21/2009-14 के माध्यम से अधिसूचित तैयार चमड़े के मानदण्डों के अनुसार नमूनों की निकासी और उनके परीक्षण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी । तत्पश्चात् दिनांक 05-09-2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 24 (आर. ई. 2013)/2009-14 द्वारा दिनांक 13-8-2013 को अधिसूचित पत्तनों के अलावा सभी विमानपत्तनों के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात की अनुमति दी गई थी ।

3. अब, उपरोक्त पैरा 2 में दर्शाए गए पत्तनों/आईसीडी के अलावा, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता के सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा पहचान किए गए/अधिसूचित किए गए आईसीडी/सीएफएस के माध्यम से भी तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े का निर्यात अनुमत किया जाएगा । दिनांक 13-8-2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 में अधिसूचित नमूनों की निकासी और उनके परीक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े का निर्यात की चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता के आईसीडी/सीएफएस के माध्यम से भी अनुमत किया गया है ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th November, 2013

No. 38 (RE-2013)/2009—2014

Subject : Permission for export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather through ICDs/CFSSs.

F. No. 01/91/180/1240/AM10/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009- 2014, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby amends Public Notice No. 23(RE-2013)/2009-14 dated 13-08-2013 read with Public Notice No. 24(RE- 2013)12009-14 dated 05-09-2013 regarding export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather.

2. Public Notice No. 23(RE-2013)/2009-14 dated 13.08.2013 had prescribed that export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned Leather would be permitted through Sea Ports of Chennai, Mumbai (JNPT) & Kolkata and ICDs Kanpur & Tughlakabad or any other port/ICDs to be notified by DGFT from time to time. This public notice also prescribed the procedure for drawal of samples and their testing as per the finished leather norms notified

vide Public Notice No. 21/2009-14 dated 01-12-2009. Subsequently, Public Notice No. 24(RE-2013)/2009-14 dated 05-09-2013 had permitted export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather through all Airports in addition to the Ports notified on 13-08-2013.

3. Now, in addition to ports/ICDs indicated in para 2 above, export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather would also be permitted through ICDs/CFSSs as identified/notified by the Customs at Chennai, Mumbai & Kolkata. Procedure for drawal of samples and its testing notified in Public Notice No. 23 dated 13-08-2013 would continue.

4. Effect of this Public Notice:

Export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather has been permitted through the ICDs/CFSSs at Chennai, Mumbai & Kolkata also.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade